

Covid-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, आईआईएसईआर पुणे में निम्नलिखित निवारक उपायों को लागू किया जाएगा। चिकित्सा समिति, संस्थान प्रशासन समिति तथा अधिष्ठाता (शैक्षिक, छात्र गतिविधि, संकाय, और अनुसंधान एवं विकास) के द्वारा आईआईएसईआर पुणे समुदाय को विशिष्ट दिशानिर्देश और निर्देश भेजे गए हैं।

जो छात्र वर्तमान में परिसर में नहीं है तथा आगामी सप्ताहों में संस्थान में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में आने वाले आगंतुकों को इन उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, छात्र, कर्मचारियों, और परिसर के सभी निवासियों को सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए और Covid-19 के प्रसार को धीमा करने में मदद करनी चाहिए।

चूँकि संस्थान इस संबंध में अद्यतन जानकारी और सरकारी निकायों से प्राप्त सलाहों पर विशेष नज़र बनाए हुए है, इसलिए इन दिशानिर्देशों और निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा। विस्तृत अद्यतन जानकारी संस्थान के सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से सूचित की गई है तथा मुख्य बिन्दुओं को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है।

1. सभी कक्षाओं को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। परीक्षा समय-सारणी के पुनः निर्धारण और/अथवा सेमेस्टर के विस्तार के संबंध में निर्णय शैक्षिक कार्यालय द्वारा नियत समय में सूचित किया जाएगा। कक्षाओं को पुनः प्रारंभ करने से कुछ दिन पूर्व सूचना जारी की जाएगी।
2. छात्रावास के सभी निवासियों को बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2020 की मध्यरात्रि तक छात्रावास खाली करना अपेक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शैक्षिक कार्यालय द्वारा अलग से संपर्क किया जाएगा।
3. जो छात्र वर्तमान में परिसर में नहीं हैं लेकिन उनकी आगामी सप्ताहों में निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे पीएचडी मौखिक परीक्षा / एमएस थीसिस डिफेन्स आदि हैं, उसके लिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भाग लेना चाहिए। बाहरी परीक्षकों / अन्य प्रतिभागियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके लिए न तो छात्र, न ही बाहरी सदस्यों / परीक्षकों को आईआईएसईआर पुणे आना चाहिए। शोध प्रबंध सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए।
4. सभी कार्यक्रम / संगोष्ठियाँ / परिसंवाद / संस्थान वार्षिक दिवस अगली अधिसूचना तक स्थगित कर दिए जाएंगे। सभी आईआईएसईआर संकाय सदस्यों को दिनांक 31 मार्च तक की अवधि में पुणे के बाहर से आने वाले अपेक्षित अपने शैक्षिक अतिथियों से उनकी निर्धारित यात्रा योजनाओं को रद्द करने के लिए पूछना चाहिए।
5. छात्रों को परिसर में रहते हुए हर समय अपने साथ संस्थान पहचान पत्र रखना होगा क्योंकि बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रवेश को अगली सूचना तक प्रतिबंधित किया जाएगा।
6. अनुसंधान प्रयोगशालाओं की गतिविधियों को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अनावासी छात्र (डे स्कॉलर) को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक किसी भी गतिविधि के लिए संस्थान नहीं आना चाहिए।

7. पुस्तकालय अगली सूचना तक बंद रहेगा।
8. अगली अधिसूचना तक आईआईएसईआर पुणे भोजनालय में बाहरी व्यक्तियों को भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संस्थान के प्रवेश द्वारों पर भोजन और अन्य पार्सल की सुपुर्दगी (डिलिवरी) प्रतिबंधित की जाएगी।
9. छात्रों को शैक्षिक कार्यालय के द्वारा जारी की सलाह का पालन करने के बाद ही परिसर में वापिस आना होगा। यदि वे किसी भी कारण से अस्वस्थ हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होने तक आईआईएसईआर पुणे वापिस आने के लिए यात्रा न करें। ऐसे सभी छात्रों को परिसर में वापिस आने पर आईआईएसईआर पुणे वेलनेस क्लिनिक को रिपोर्ट करना होगा।
10. परिसर में डे केयर सुविधा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बंद रहेगी।
11. अतिथि गृह प्रबंधक को सलाह दी जाती है कि वह विदेश से आने वाले किसी भी आगंतुक के बारे में चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। चिकित्सा कार्यालय उन्हें सरकारी सलाहकारों के द्वारा निर्धारित परीक्षण एवं स्व-पृथक रखने की सलाह देगा।
12. संकाय सदस्यों को यथासंभव घर से कार्य करने की सलाह दी जाती है। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ई-मेल / इंटरनेट पर अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे और, जिन्हें संस्थान में शारीरिक रूप से (फिजिकली) उपस्थित होना आवश्यक है, उन्हें तदनुसार सूचित किया जाएगा। वेलनेस सेन्टर, सुरक्षा, तकनीकी अनुरक्षण, आदि के कर्मचारी अपने कार्य का निर्वहन जारी रखेंगे।
13. सभी कर्मचारियों (नियमित और संविदा) को सलाह दी जाती है कि जब वे ड्यूटी पर हों तब किसी भी प्रकार के चिकित्सा मुद्दों के लिए संस्थान के नामित अधिकारियों / वेलनेस सेन्टर को तुरन्त सूचित करें।

### **Covid-19 प्रकोप और सुरक्षा सिफारिशों के संसाधन**

- 1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार: [Advisories and Awareness Material on MoHFW website](#); [MoHFW updates on Twitter](#)
- 2) [Updates and Information from the World Health Organisation](#)